

20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोवा में 20वीं [समुद्री राज्य विकास परिषद \(Maritime State Development Council- MSDC\)](#) की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत के समुद्री क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई।

- इस कार्यक्रम में 80 से अधिक मुद्दों का हल करने हेतु केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के हितधारकों को बंदरगाह आधुनिकीकरण, समुद्री अवसंरचना, संपर्कता तथा नियामक फ्रेमवर्क के लिये केंद्रित कर एक मंच पर लाया गया।

20वीं MSDC की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **नई पहल:**
 - MSDC ने नेशनल सिगल वडिओ सिस्टम प्लेटफॉर्म पर **नेशनल सेफ्टी इन पोर्ट्स कमेटी (NSPC) एप्लीकेशन** की शुरुआत की, ताका कार्य नषिपादन की रथिल-टाइम मॉनटरिंग और बेहतर सूचना साझाकरण के माध्यम से वनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके, दक्षता में सुधार लाया जा सके तथा समुद्री क्षेत्र के हतिधारकों के लिये लागत कम की जा सके।
 - मल्टी-मॉडल और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वविादों को सुलझाने के लिये **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वविाद समाधान केंद्र (IIMDRC)** की शुरुआत की गई, जिससे 'भारत में समाधान' पहल को बल मला।
 - थकि टैंक **भारतीय समुद्री केंद्र (IMC)**, जो समुद्री हतिधारकों के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, को लॉन्च कया गया।
- **बंदरगाह और राज्य रैंकगि प्रणाली:** परिषद द्वारा समुद्री क्षेत्र में प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देने तथा प्रदर्शन में सुधार करने के लिये **राज्य रैंकगि फ्रेमवर्क एवं बंदरगाह रैंकगि प्रणाली के कार्यान्वयन** पर चर्चा की गई।
- **वसिासत पहल:** गुजरात के लोथल में **राष्ट्रीय समुद्री वसिासत परसिर (NMHC)** को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में रेखांकित कया गया, जो उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की समृद्ध समुद्री वसिासत को प्रदर्शित करता है।
- **नाविकों पर ध्यान:** **नाविकों** को आवश्यक कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गई, जिससे उनकी कार्य स्थितियों में सुधार हुआ और उन्हें तटीय अवकाश की सुवधा मलिा।
- **प्रमुख बंदरगाह परयोजनाएँ:** **महाराष्ट्र के वधावन** में भारत का 13वाँ प्रमुख बंदरगाह तथा **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गैलेथिया खाड़ी को 'प्रमुख बंदरगाह'** के रूप में नामति करने पर प्रकाश डाला गया।
 - इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण **कोचीन शपियार्ड लिमिटेड में भारत के सबसे बड़े ड्रेजर, 12,000 घन मीटर ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर (TSHD)** के नरिमाण हेतु कील बछिाने का समारोह भी कया गया, जो भारत की समुद्री अवसंरचना और क्षमताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **मेगा शपिबलिडगि पार्क:** जहाज़ नरिमाण क्षमताओं को प्रबल करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये कई राज्यों में मेगा शपिबलिडगि पार्क स्थापति करने पर चर्चा की गई।
- **रेडियोधर्मी जाँच उपकरण (RDE):** सुरक्षा बढ़ाने के लिये बंदरगाहों पर **रेडियोधर्मी जाँच उपकरण** के बुनयादी ढाँचे का विकास की योजना बनाई गई। संकट में फँसे जहाज़ों को लंगर लगाने के लिये आश्रय स्थल बनाने पर भी चर्चा हुई।

भारत के समुद्री क्षेत्र से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- [मेरीटाइम इंडिया वजिन- 2030](#)
- [सागरमाला कार्यक्रम](#)
- [समुद्री अमृतकाल वजिन- 2047](#)
- [राष्ट्रीय जलमार्ग](#)

समुद्री राज्य विकास परिषद

- वर्ष 1997 में स्थापित MSDC भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास हेतु शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ नकट समन्वय में प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है।
- MSDC समुद्री राज्यों में छोटे, कैप्टिव और नजी बंदरगाहों के विकास की नगिरानी करता है, ताकि प्रमुख बंदरगाहों के साथ उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा अवसरचक्रात्मक आवश्यकताओं का आकलन कर संबंधित मंत्रियों की सफारिशें की जा सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????

प्रश्न. हाल ही में नमिनलखिति राज्यों में से कसिने एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लयि एक कृत्रमि अंतरदेशीय बंदरगाह के नरिमाण की संभावना का पता लगाया है? (2016)

- (a) आंध्र प्रदेश
- (b) छत्तीसगढ़
- (c) कर्नाटक
- (d) राजस्थान

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/20th-maritime-state-development-council>

